



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

7 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1098) पटना, मंगलवार, 29 सितम्बर 2015

---

निर्वाचन विभाग

---

अधिसूचना

23 सितम्बर 2015

सं0 एम1-009/2014-30—निरर्हित घोषित किये गये अभ्यर्थी की निरर्हता रद्द करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की आदेश संख्या-बिहार-वि.स./107/2010 दिनांक 11.09.2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सोहन कुमार ठाकुर,

संयुक्त सचिव-सह-

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

## भारत निर्वाचन आयोग

## आदेश

**निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001** दिनांक 11 सितम्बर, 2015/20 भाद्रपद, 1937 (शक)

सं० बिहार-वि.स./107/2010—यतः, आयोग ने **107-दरौली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2010 में हुए बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्री रघुनाथ राम, ग्राम + पो.—रामपुर, पो.—रामपुर टोला, जिला—सिवान, बिहार** द्वारा अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं करने के कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अधीन अपने दिनांक 7 अगस्त, 2014 के आदेश संख्या 76/बिहार-वि.स./2010 द्वारा संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए अथवा होने के लिए निरर्हत कर दिया था।

और, यतः, उक्त **श्री रघुनाथ राम**, ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन उक्त आदेश के विरुद्ध एक अपील दिनांक शून्य दायर की थी और अपनी उस अपील में बताए गए कारणों के आधार पर निरर्हता हटाने के लिए अनुरोध किया था।

और, यतः, सक्षम प्राधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अन्तर्गत अपील पर निर्णय लेने के लिए उपरोक्त आवेदक की व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करने का निर्णय लिया और उसकी सुनवाई करके अपने आदेश दिनांक **11 सितम्बर, 2015** द्वारा निर्णय लिया कि उक्त **श्री रघुनाथ राम** पर दिनांक 7 अगस्त, 2014 के आदेश सं. 76/बिहार-वि.स./2010 के द्वारा आरोपित निरर्हता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी।

अतः, अब, आयोग के तारीख 7 अगस्त, 2014 के आदेश संख्या 76/बिहार-वि.स./2010 के साथ संलग्न सारणी की क्रम संख्या 07 पर स्थित **श्री रघुनाथ राम** का नाम 11 सितम्बर, 2015 से हटा दिया जाएगा।

आदेश से,  
आर० के० श्रीवास्तव,  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## ORDER

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 Dated 11<sup>th</sup> September, 2015/20  
Bhadrapada, 1937 (SAKA)*

No. BR-LA/107/2010—WHEREAS, the Commission, vide its Order No. 76/BR-LA/2010 dated 7<sup>th</sup> August 2014, had disqualified under Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, **Sh. Raghunath Ram, Vill + Post-Rampur, PO-Rampur Tola, Dist-Siwan, Bihar** a contesting candidate for the General Election to the Bihar Legislative Assembly from **107- Darauli** Assembly Constituency, held in the year 2010, for being chosen as, and for being a member of either House of the People or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years, for not lodging his account of election expenses in the manner required by law.

AND, WHEREAS, the said **Shri Raghunath Ram** had preferred an appeal dated nil under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 against the said order and had requested for the removal of the disqualification for the reasons stated in the said appeal.

AND, WHEREAS, the competent authority decided to give a personal hearing to the aforesaid applicant for deciding the appeal under section 11 of the Representation of People Act, 1951 and having heard him, has decided, vide its order dated 11<sup>th</sup> **September, 2015** that the disqualification imposed on said **Shri Raghunath Ram**, vide Order No. 76/BR-LA/2010 dated 7<sup>th</sup> August, 2014, shall be revoked with immediate effect.

NOW, THEREFORE, the name of **Sh. Raghunath Ram**, appearing at Serial no. 07 of the Table appended with Commission's Order no. 76/BR-LA/2010 dated 7<sup>th</sup> August, 2014, shall be omitted w.e.f. 11<sup>th</sup> September, 2015.

By Order,

**R. K. SRIVASTAVA,**

*Principal Seceretary,*

*Election Commission of India.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1098-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>